

**चोरो का गैंग गिरफ्तार ।**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के द्वारा "अपराध रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध" चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अजयकुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में थाना इटवा पुलिस व SOG टीम द्वारा आज दिनांक 25.12.2020 को मुखबिर के सूचना के आधार पर भिलौरी पुलिया (निकट रामऔतार मेमोरियल स्कूल) के पास पुलिस टीम द्वारा छिपकर चोरो द्वारा की जा रही बातचीत को सुना गया । चोरो द्वारा आपस में बात की जा रही थी कि इटवा के तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे राइस मिल चौराहे से पहले एक घर के सामने बिजली का केबिल (ड्रम) पड़ा है उसको चल करके चुरा कर DCM पर लाद लेते है । उसके बाद कस्बा इटवा में पावर हाउस से पहले लोहे की छड़े रखी गयी है उसको भी चुरा करके DCM पर लाद लेते है । इन बातों को सुनकर पूर्ण विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा एकाएक टार्च की रोशनी डालते हुए उन्हें रोका व टोका गया तब वे सब घबराकर मौके से भागने का प्रयास किये कि पुलिस टीम द्वारा घेर कर मौके पर ही पकड़ लिया गया । उनके कब्जे से 2 अदद तमंचा अबैध 12 बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस अबैध 12 बोर व 2 अदद चाकू नाजायज व 2 अदद वाहन, 2 अदद गैस कटर, 3 अदद लोहा काटने की कैची, 2 अदद हेक्सा (आरी), 2 अदद रिंच, एक अदद पेचकस, एक अदद लोहे की राड, 3 अदद तार छिलने वाला ब्लेड, एक अदद रस्सा बरामद की गयी कुल 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किये गये । 01. अब्दुल कलीम पुत्र इशीमोहम्मद निवासी तरैना थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर बताया, जामा तलाशी ली गयी तो कमर के दाहिने तरफ पेन्ट व बेल्ट के सहारे खुशा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर अबैध बरामद हुआ तथा पेन्ट के बांयी जेब में दो कारतूस 12 बोर जिन्दा बरामद हुआ तथा पेन्ट की दायी जेब में 100 – 100 के 2 नोट कुल 200 रुपये बरामद हुआ । 02. विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा निवासी खरगौला थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर बताया । जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए पेन्ट व बेल्ट के सहारे कमर में बाँयी तरफ खुशा हुआ एक तमंचा 12 बोर अबैध व पेन्ट की दाहिने जेब में 2 जिन्दा कारतूस अबैध 12 बोर तथा पेन्ट की बाँयी जेब में 50 रुपये की एक नोट बरामद हुआ । 03. संजय चौधरी पुत्र कुलदीप निवासी पड़िया थाना डुमरियागंज जनपद सि0नगर बताया । जामा तलाशी ली गयी तब कमर के दाहिने तरफ बेल्ट के सहारे खुशा हुआ एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ तथा पेन्ट के दाहिने जेब में 10, 10 के दो नोट कुल 20 रूपया बरामद हुआ । 04. इमरान पुत्र इनायतुल्लाह निवासी मूड़ाडीहा थाना डुमरियागंज जनपद सि0नगर बताया जामा तलाशी ली गयी तो कमर में दाहिने तरफ बेल्ट व पेन्ट के सहारे एक चाकू नाजायज बरामद हुआ । दोनो वाहनो को चेक किया गया तो वाहन संख्या UP55CT8428 इंडिगो कार, रंग काली में डिग्गी में चोरी करने के औजार 2 अदद गैस कटर हुलिया मुठिया प्लास्टिक पाइप पीली घातु, गैस कन्ट्रोलर 2 लगा हुआ । कैची लोहा काटने वाली 3 अदद बरामद हुआ । वाहन संख्या UP55T5644 टाटा 407 (DCM) पर 2 हेक्सा (आरी) ब्लेड लगा हुआ, 2 अदद रिंच, एक अदद पेचकस, एक अदद लोहे की राड, एक अदद रस्सा, 3 अदद तार को छिलने वाले ब्लेड बरामद हुआ । इस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**बरामदगी:-**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 01- 2 अदद तमंचा अबैध 12 बोर व 4 अदद जिन्दा कारतूस अबैध 12 बोर | 06- 2 अदद हेक्सा (आरी),         |
| 02- 2 अदद चाकू नाजायज   | 07- 2 अदद रिंच,                 |
| 03- 2 अदद वाहन- टाटा 407 (DCM), इंडिगो कार                    | 08- एक अदद पेचकस,               |
| 04- 2 अदद गैस कटर,  | 09- एक अदद लोहे की राड,         |
| 05- 3 अदद लोहा काटने की कैची,                                 | 10- 3 अदद तार छिलने वाला ब्लेड, |
|   | 11- एक अदद रस्सा बरामद          |

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अब्दुल कलीम पुत्र इशीमोहम्मद सा. तरैना थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर,
2. विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामकिशोर शर्मा सा. खरगौला थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर,
3. संजय चौधरी पुत्र कुलदीप सा. पड़िया थाना डुमरियागंज जनपद सि0नगर,
4. इमरान पुत्र इनायतुल्लाह सा. मूड़ाडीहा थाना डुमरियागंज जनपद सि0नगर

**अपराधिक इतिहास-**

1. मु.अ.सं. 258/2020 धारा 401, 419, 420, 468, 471 भा.द.वि थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
2. मु.अ.सं. 259/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
3. मु.अ.सं. 260/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
4. मु.अ.सं. 261/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर
5. मु.अ.सं. 262/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

**पुलिस टीम इटवा-**

- |  |   |
|--|---|
| 1. प्र.नि. श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, थाना इटवा जनपद सि0नगर | 8. का. अखिलेश यादव, SOG टीम                           |
| 2. वरि0उ0नि0 श्री रामेश्वर यादव, थाना इटवा जनपद सि0नगर       | 9. का. राजीव शुक्ला SOG टीम                           |
| 3. उ.नि. श्री पंकज कुमार पाण्डेय, प्रभारी SOG टीम            | 10. का. रंजीत सिंह, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर       |
| 4. उ.नि. श्री पप्पू कुमार, थाना इटवा जनपद सि0नगर             | 11. का. अजय कुमार गुप्ता, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर |
| 5. का. आनन्द प्रकाश यादव, SOG टीम                            | 12. का. रामरतन, थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर           |
| 6. का. मृत्युंजय कुशवाहा, SOG टीम                            | 13. का. देवेश सिंह थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर        |
| 7. का. पवन तिवारी, SOG टीम                                   |   |

**02**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**“ नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार” थाना-इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के द्वारा “अपराध रोकथाम व अपराधियों के विरुद्ध” चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री अजयकुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन व श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक इटवा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी जिगनाधाम उ0नि0 श्री कन्हैयालाल मौर्या द्वारा एक अभियुक्त जुनेद पुत्र सनाउल्लाह निवासी विशुनपुर चौबे थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर को देवरिया पुलिस से एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**03**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**मोहाना पुलिस की कार्यवाही में स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर CCTV लगाने हेतु अपील -**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में व श्री जय प्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में चौकी शुद्धोधन पर स्वर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक कर सुरक्षा के दृष्टिगत दुकानो/ घरों में CCTV कैमरा लगाने हेतु वार्ता हुयी , साथ ही उन्हें जिम्मेदारी दी गयी कि सार्वजनिक स्थानों/चौराहों/घरों/ दुकानों पर समन्वय स्थापित कर CCTV कैमरा लगाये।

**04**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**08 बोरी यूरिया खाद नाजायज मय तीन अदद सायकिल के साथ तीन तस्करो को पुलिस ने दबोचा**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश, श्री मायाराम वर्मा,अ.पु.अ. के ,दिशा निर्देश व पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 25.12.2020 को थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा तीन तस्करो द्वारा 08 बोरी यूरिया खाद नेपाल नाजायज तरीके से ले जाते समय ग्राम ठाकुरापुर बॉर्डर के समीप से बरामद कर कस्टम अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही किया गया। बरामद यूरिया खाद कस्टम मय अभियुक्त गण कस्टम कार्यालय ककरहवा दाखिल किया जायेगा।

**टीम का विवरण -**

- 1- का.मनोज कुमार थाना कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर।
- 2-का. अरुण कुमार थाना कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण-**

- 1- अर्जुन पुत्र बाबूराम सा. गौरा थाना पकड़ी जिला कपिलवस्तु नेपाल।
- 2- एक सायकिल पर 03बोरी यूरिया नाजायज।
- 1- अतिकुर्रहमान पुत्र ओबैदुल्ला सा. नरखोरिया थाना कपिलवस्तु जिला सिद्धार्थनगर।
- 2- एक सायकिल पर 03 बोरी यूरिया नाजायज।
- 1- लव कुश पुत्र राम सुभग सा. गौरा थाना पकड़ी जिला कपिलवस्तु नेपाल।
- 2- एक सायकिल पर 02बोरी यूरिया नाजायज।

**05**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**मोहाना पुलिस की कार्यवाही में धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत 03 बोरी में 135 कि0ग्रा0 यूरिया कीमती करीब 1350/- रुपया कस्टम किया गया -**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में श्री जय प्रकाश दुबे थानाध्यक्ष थाना मोहाना के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 NIL/2020 धारा 11 कस्टम अधिनियम के अन्तर्गत 03 बोरी में 135 कि0ग्रा0 यूरिया कीमती करीब 1350/- रुपया कस्टम किया गया।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ0नि0 शिवनारायण सिंह थाना मोहाना जिला सि0नगर
2. का0 मिराजुद्दीन थाना मोहाना जिला सि0नगर
3. का0 शिवानन्द धर दूबे थाना मोहाना जिला सि0नगर

**06**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टाटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-25-12-2020 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 484 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 109 वाहनों का चालान कर ₹ 1,09,100/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

**07**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 25.12.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह मय टीम द्वारा तस्करी करने वाले दो व्यक्तियों को दो सायकिल पर 4 बोरी यूरिया खाद के साथ समय करीब 15.20 बजे लोहटी इण्डोनेपाल बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध 11 कस्टम एक्ट की कार्यवाही करते हुए कस्टम कार्यालय बड़नी मय माल के भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण-**

1. उमेश पुत्र रामबृक्ष सा. बासखोर थाना तौलिहवा जिला कपिलवस्तु नेपाल
2. पवन पुत्र हनुमान सा. बासखोर थाना तौलिहवा जिला कपिलवस्तु नेपाल

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

उ.नि. सूर्यप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर  
हे.का. राम मिलन पासवान चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर  
का. राजू यादव चौकी कोटिया थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

**08**

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी, सदर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राधेश्याम राय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में थाना स्थानीय पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही---

आज दिनांक 25/12/2020 को हाईडिल तिराहा सिद्धार्थनगर पर यूपी 55 AA 1583 के चालक श्यामलाल पुत्र श्री हनुमान यादव ग्राम पुलगावपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपनी गाड़ी खड़ा करके चाय की दुकान पर चाय नाश्ता करने गए एवं वापस आकर बगल में खड़ी हुई गाड़ी यूपी 56 V 8454 को लेकर चले गए जिस पर यूपी 56 V 8454 के वाहन स्वामी श्री अतुल सौरव अग्रहरी पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 9 गांधीनगर घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज द्वारा अपने गाड़ी की गायब होने की सूचना हाईडिल तिराहा पर पुलिस को दी पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर छानबीन करने पर एक गाड़ी यूपी 55 AA 1583 खड़ी मिली जिस पर उक्त खड़े वाहन के स्वामी से संपर्क किया गया तो ज्ञात हुआ कि भूलवश गाड़ी बदल गई है जिसको लेकर चला गया जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों वाहन स्वामियों को गाड़ियां आपस में सुपुर्द कराया गया।

**...वाहन को सुपुर्द किये गये व्यक्तियों का नाम पता व वाहन सं0---**

- 1- श्यामलाल पुत्र श्री हनुमान यादव ग्राम पुलगावपुर थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर सम्बन्धित वाहन सं0- यूपी 55 AA 1583
- 2- अतुल सौरव अग्रहरी पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 9 गांधीनगर घुघली थाना घुघली जनपद महाराजगंज सम्बन्धित वाहन सं0- यूपी 56 V 8454

**...तत्परता से वाहन तलाश कर वाहन सम्बन्धित स्वामी को सुपुर्द करने वाले पुलिस टीम का विवरण ---**

उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय प्रभारी चौकी जेल रोड थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर  
का0 ओमवीर यादव चौकी जेल रोड थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर  
का0 दीपक अग्निहोत्री चौकी जेल रोड थाना को0 सि0नगर जनपद सिद्धार्थनगर

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020****थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में "अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान" के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 25.12.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में चौकी प्रभारी खुनुवा उ.नि. हरिनारायण दीक्षित टीम द्वारा 01 अभियुक्त को साप्ताहिक बाजार ग्राम पकड़िहवा के पास से 30 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार कर मु.अ.सं. 325/20 धारा 60/63 आब.अधि. पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. रामबेलास पुत्र विश्व पासवान सा. मदरहना सेखुईया थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

**बरामदगी का विवरण-**

1. 30 शीशी नेपाली शराब

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ.नि. हरिनारायण दीक्षित थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।
2. हेका. गिरीश चन्द्र त्रिपाठी थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 25-12-2020**

**थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 01 नफर अभियुक्त को पिकअप (UP 55 T 8316) पर लदी 15 बोटा जंगल से चोरी से काटी गयी साखु की लकड़ी के साथ गिरफ्तार।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 25.12.2020 को जुर्म- जरायम रोकथाम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए क्षेत्र में मामुर थे चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त को पिकअप नं ( UP 55 T 8316 ) पर 15 बोटा जंगल से चोरी से काटी गयी साखु की लकड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 149/20 धारा 379/411 भादवि. , 5/26 वन अधिनियम 1927 , 3/28 ट्रान्जिट एक्ट व 207 MV act पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. सागर मौर्या पुत्र हरिराम मौर्या साकिन अमहट थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उ0नि0 इशान्शु श्रीवास्तव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
02. हे०का० राजेंद्र यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
03. का० चन्द्रशेखर यादव थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।